



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

[128] नई दिल्ली, सोमवार, जनवरी 24, 2011/माघ 4, 1932

[128] NEW DELHI, MONDAY, JANUARY 24, 2011/MAGHA 4, 1932

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 जनवरी, 2011

का.आ. 158(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम हा गया है) की धारा 3क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि आंध्र प्रदेश राज्य नलगोन्डा जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 9 के 62/290 कि.मी. से 126/750 कि.मी. तक के भूखण्ड (हैदराबाद-विजयवाड़ा सेक्शन) के मार्ग (चौड़ा करने/चार लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए वह भूमि अपेक्षित है, जिसका संक्षिप्त गणन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति, जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर आक्षेप कर सकेगा।

ऐसा प्रत्येक आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् रेवेन्यू डिवीजनल ऑफीसर/भूमि अर्जन अधिकारी, नलगोन्डा, को लिखित रूप में किया जाएगा और उसमें उसके आधार अधिकथित किए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी आक्षेपकर्ता को व्यक्तिगत रूप में या किसी विधि व्यवसायी द्वारा देने जाने का अवसर देगा और ऐसे सभी आक्षेपों की सुनवाई करने के पश्चात् तथा ऐसी और जाँच करने के पश्चात्, यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आक्षेपों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा।

उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई आदेश अंतिम होगा।

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के भूरेखांक और अन्य ब्यौरे सक्षम प्राधिकारी के उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका तबद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 9 के 62/290 कि.मी. से 126/750 कि.मी. तक (हैदराबाद-विजयवाड़ा सेक्शन) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित भूमि का संक्षिप्त विवरण

क्रम संख्या	जिले का नाम	तालुक/मंडल का नाम	गाँव का नाम	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	क्षेत्रफल (वर्ग मीटर में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	नलगोन्डा	केथेपल्ली	कोरलापहाड	186/4	निजी	शुष्क	3844.5
				193/4	निजी	शुष्क	10622.97

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	नलगोन्डा	केथेपल्ली	कोरलापहाड (जारी)	194/4	निजी	शुष्क	11533.51
				198/4	निजी	शुष्क	8093.69
				199/4	निजी	शुष्क	6576.12
				212/4	निजी	शुष्क	33285.29
				213/4	निजी	शुष्क	15651.52
				214/2	निजी	शुष्क	1821.08
				कुल			91458.68

[फा. सं. भाराप्र/बीओटी/11012/50/2010]

एस. नरेन्द्र, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th January, 2011

S.O. 158(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the Schedule below, is required for building (widening/ four-laning, etc.), maintenance, management and operation of National Highway No. 9 on the stretch of land from km. 62/290 to km. 126/750 (Hyderabad -Vijayawada Section) in District Nalgonda in the State of Andhra Pradesh, hereby declares its intention to acquire such land.

Any person interested in the said land may, within twenty-one days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, object to the use of such land for the aforesaid purpose under sub-section (1) of Section 3C of the said Act.

Every such objection shall be made to the competent authority, namely, the Revenue Divisional Officer/Land Acquisition Officer, Nalgonda, in writing, and shall set out the grounds thereof and the competent authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by a legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the competent authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the competent authority under sub-section (2) of Section 3C of the said Act shall be final.

The land plans and other details of the land covered under this notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the competent authority.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the stretch of land from Km. 62/290 to Km. 126/750 (Hyderabad to Vijayawada Section) of the National Highway No. 9 in the State of Andhra Pradesh

Sl. No.	Name of the district	Name of the taluk/mandal	Name of the village	Survey number	Type of land	Nature of land	Area (in square metres)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Nalgonda	Kethepally	Korlapahad	186/4	Private	Dry	3844.5
				193/4	Private	Dry	10622.97
				194/4	Private	Dry	11533.51
				198/4	Private	Dry	8093.69
				199/4	Private	Dry	6576.12
				212/4	Private	Dry	33285.29
				213/4	Private	Dry	15681.52
				214/2	Private	Dry	1821.08
				Total			91458.68

[F. No. NHAI/BOT/11012/50/2010]

S. NARENDRA, Director